

RITA FINANCE AND LEASING LIMITED

(Formerly known as Rita Holdings Limited)

Regd. Off.: 324A, IIIrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi 110085

E-mail: info@ritaholdings.in, ritaholdingsltd@gmail.com; Website: www.ritaholdings.in; Tel.: 011-45689444

CIN: L67120DL1981PLC011741

February 10, 2022

To

Department of Corporate Relations BSE Limited P. J. Towers, Dalal Street, Fort Mumbai-400 001	Metropolitan Stock Exchange of India Limited (Formerly Known as MCX Stock Exchange Limited) 4th Floor, Vibgyor Towers, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400 098
Security Code: 543256	Symbol: RFLL

Dear Sir,

Sub.: **Newspaper advertisement of un-audited financial results approved in the board meeting held on Wednesday, 09th day of February, 2022 for the quarter ended December 31, 2021**

ISIN: INE018S01016

With reference to the regulation 47 and other applicable regulations, if any of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are submitting herewith the copy of newspaper advertisement of un-audited financial results approved in the board meeting held on Wednesday, 09th day of February, 2022 at 04:00 P.M. for the quarter and nine months ended December 31, 2021 published in English language national daily newspaper circulating in the whole or substantially whole of India i.e. "Financial Express" and Hindi newspaper i.e. "Jansatta" as on Thursday, February 10, 2022.

Please find enclosed the copy of the same.

Thanking You,
Yours truly

For Rita Finance and Leasing Limited
(Formerly Rita Holdings Limited)

Pawan Kumar Mittal
(Director)
DIN: 00749265

Encl: Copy of Newspaper Advertisement

MELMONT CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED

Corporate Identity Number (CIN): U74210KA2004PTC034801
Regd. Office: NO.130/1, ULSOOR ROAD, BANGALORE, KARNATAKA 560042
Email: melmont@puravankara.com Website: http://www.puravankara.com

Statement of Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2021

Table with 4 columns: Particulars, Quarter ended 31.12.2021, Corresponding Quarter ended 31.12.2020, Previous Year ended 31.03.2021. Rows include Total Income from Operations, Net Profit, Total Comprehensive Income, etc.

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the LODR Regulations. 2. For the other items referred in regulation 52 (4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to the Bombay Stock Exchange and can be accessed on the URL www.bseindia.com

For and on behalf of the Board of Directors of MELMONT CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
Director: Amanda Joy Puravankara
DIN: 07128042



INGERSOLL-RAND (INDIA) LIMITED

Regd. Office : First Floor, Subramanya Arcade, No. 12/1, Bannerghatta Road, Bengaluru - 560 029.
CIN : L05190KA1921PLC036321
Telephone: +91-80-46855100 Fax: +91-80-41694399
Website: www.irco.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2021

Table with 4 columns: Particulars, Quarter Ended 31 December 2021, Year to Date Figures for Current Period Ended 31 December 2021, Corresponding Quarter Ended 31 December 2020. Rows include Total income, Net Profit, Total Comprehensive Income, etc.

Notes: (1) The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. (2) The Company has assessed the possible effects that may result from the pandemic relating to COVID-19 on the carrying amounts of Receivables. (3) Figures for the previous period / year have been regrouped / reclassified as necessary to conform to current period / year classification.

Place : Dubai
Date : 09 February 2022
Amar Kaul
Chairman



Regd. Office : 7, Council House Street, Kolkata - 700 001
Admn. Office : 1-10-177, 4th Floor, Varun Towers, Begumpet, Hyderabad - 500 016
CIN : L01400WB2000PLC091286
Website : www.jkagri.com, E-mail : info@jkagri.com, Ph. : 040-66316858, Fax : 040-27764943

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2021

Table with 5 columns: PARTICULARS, Quarter Ended (Unaudited) 31.12.2021, Quarter Ended (Unaudited) 31.12.2020, Nine Months Ended (Unaudited) 31.12.2021, Nine Months Ended (Unaudited) 31.12.2020. Rows include Total Income from Operations, Profit before Interest, Net Profit, etc.


Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 2. The Company's business is of seasonal nature, therefore results of the current Quarter are not representative of full year's performance. 3. Covid 19 situation is still continuously evolving, the eventual impact may be different from the estimates made as of the date of approval of these financial results.

JK seeds
For JK Agri Genetics Limited
Place : New Delhi
Date : 9th February, 2022
Bharat Hari Singhania
Chairman



Digital Banking Division, Corporate Office, Chennai
Indian Bank, a leading Public Sector Bank, is interested in selection of Service Provider for:
1. Outsourcing of Debit Card Management Services on pay card basis for 5 years.
2. Switching Solution for Point of Sale (PoS) Acquiring Business.

Interested parties may refer Bank's Website: https://www.indianbank.in/tenders for details.



Bengal Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. (A Government of India Enterprise)
6, Ganesh Chunder Avenue, Kolkata - 700 113
Phone No. 03322371525/22363148
BCPL invites tender for upgrading the existing Alumina Ferric Plant from Grade II to Grade IV & V as per IS 299:2012 with Production Process at BCPL, Panihati Plant (Kolkata), vide Tender No BCPL/Pl/Project/01/Alum Gr IV & V-21 Dt 10.02.2022.

Details available on our official website www.bengalchemicals.co.in & https://eprocure.gov.in
Please refer to the above websites for further amendments, if any.



UFM INDUSTRIES LIMITED
CIN: L15311AS1986PLC002539
Regd. Office:
Meherpur, Silchar, Assam - 788 015
Tel: 03842-224 822/996, Fax: 03842-241539
Email: ufmindustries@rediffmail.com
Website: www.ufmindia.weebly.com
NOTICE
Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, 14th February, 2022 inter alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended 31st December, 2021.

For UFM Industries Limited
Sd/-
Place: Silchar
Date: 08.02.2022
Company Secretary



NOTICE FOR INVITING BID
GIL invites bid on Government e-Marketplace (GeM) for Supply, Installation, commissioning of 40 nos. of Firewall appliances with 7 years of subscription and support (GeM Bid number: GEM/2022/B/1910149 Dated:09-02-2022) at various institutes on behalf of Office of the Directorate of Technical Education, Gandhinagar, Gujarat. Interested parties may visit https://gil.gujarat.gov.in or https://gem.gov.in for eligibility criteria & more details about the bid.



GUJARAT ENERGY TRANSMISSION CORPORATION LTD.
H.O. : Sardar Patel Vidyut Bhavan, Race Course, Vadodra : 390007
e-TENDER NOTICE INVITING TENDERS OF GETCO CORPORATE OFFICE, VADODARA
GETCO: www.getco.gujarat.com Dept:GOG: http://guj-epd.gov.in
TENDER NOTICE NO. CE(P&C):TN - 18-21-22
(A) CE(P&C)/E-2856/III/ Thermal Imager camera /2021-22
(B) CE(P&C)/E-2852/III/PPC Controller /2021-22
(C) CE(P&C)/E-2850/Tauktae/220 KV Tower materials/2021-22
(D) CE(P&C)/E-2854/LT Panel Board (B/B) /2021-22
(E) GETCO/CE (Proj.)/SE(C)/NT-34 & 36/21-22 /For Civil Works
(F) Package Work for (1) 66kV Bhadeli-Jagalala S/S under Navsari TR Circle (Re-invite) (2) 66kV Kajali S/S under Junagadh TR Circle (Re-invite) (3) 66kV Saringpur (Damrala) Amrli TR Circle (Re-invite) and (4) 66kV Jindva S/S under Himatnagar TR Circle. (Re-invite) (5) Different types of cable trench for laying of 66KV Cable trench at 66KV Bol-2 s/s u/dner Nadiad TR Circle. (Re-invite)
(G) CE (Project) / SE(Planning)/Allu Boriya/TN- 20, Dungi TN-21, Bartad TN-22, Mudat TN-23, Haladava, Velanpur TN-25.
Land for 66KV Allu Boriya, 66KV Bartad, 66KV Dungi, 66KV Mudat (Re-invite), and 66KV Haladava, 66KV Velanpur substation in tribal Area at Ta. Mahuva, Dist. Surat as per Schedule-A
Above Tender are available on web-site www.gseb.com & www.getco.gujarat.com (for view and download only) & https://getco.nprocure.com (for view, download and on line tender submission).
Note: Bidders are requested to be in touch with our website till opening of the Tender.
Chief Engineer
(Procurement & Contracts)



RITA FINANCE AND LEASING LIMITED
(Formerly known as Rita Holdings Limited)
CIN: L67120DL1981PLC011741
Regd. Off: 324A, IIIrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085
Ph: 011-45689444 | Email: ritaholdingsltd@gmail.com | Website: www.ritaholdings.in

Extracts of the Standalone Un-audited Financial Results For the Quarter and nine months ended December 31, 2021

Table with 5 columns: Sl No., Particulars, Quarter Ended 31/12/2021, Year to date Figures (Nine Months Ended) 31/12/2021, Corresponding 3 Months Ended in the previous year 31/12/2020. Rows include Total income from operations, Net Profit, Total Comprehensive Income, etc.

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 2. The above result has been reviewed by the audit committee and approved by the Board at their meeting held on 09th February, 2022. 3. The Financial result have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Ind-as rules (As amended).



Shetron Limited
Regd. Office: Plot No.1, Bommasandra Industrial Area, Hosur Road, Bangalore - 560099. CIN: L21014KA1980PLC003842.
Website: www.shetrongroup.com; Email: investors@shetrongroup.com Ph: 27832290/91/92/46

Extract of Un-audited Financial Results for the Third Quarter and Nine Months Ended 31st December, 2021

Table with 5 columns: Sl No., Particulars, Quarter ended 31.12.2021, Nine Months ended 31.12.2021, Quarter ended 31.12.2020. Rows include Total Income from operation, Net Profit, Total Comprehensive Income, etc.

Notes: 1. The above Un-audited Financial Results for the Third Quarter and Nine Months Ended 31st December, 2021 which have been subjected to Limited Review by Statutory Auditor of the Company as reviewed and recommended by the Audit Committee, were approved by the Board of Directors at its meeting held on 8th February, 2022. 2. The Company is engaged in the manufacture of Metal Packaging and hence results are reported under one segment. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange at http://www.bseindia.com and the website of the Company at http://shetrongroup.in/pdf/S9e00ae-2e63-4626-8b5c-3365e391fa5d.pdf



AGGARSAIN SPINNERS LIMITED
CIN: L17297HR1998PLC034043
Regd. Off.: 2nd FLOOR, SCO 404, SECTOR-20, PANCHKULA
Ph No.: 0172-4644777 | Email : aggarsainspinner@gmail.com
Website : www.aggarsainspinner.com

Extract of Standalone Un-Audited Financial Results for the Quarter Ended 31st December, 2021

Table with 5 columns: Sl No., Particulars, 3 Months Ended 31.12.2021, Year Ended 31.12.2021, 3 Months Ended 31.12.2020. Rows include Total income from operation, Net Profit, Total Comprehensive Income, etc.

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Quarterly financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 2. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 09-02-2022. For and on behalf of the Board For Aggarsain Spinnars Limited Sd/- Sunny Garg (Managing Director) DIN: 02000004



The Tata Power Company Limited

Registered Office - Bombay House, 24, Hornby Road, Mumbai 400 001. Website: www.tatapower.com. CIN: L28220MH1918PLC00567

EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2021

Table with 6 columns: Sr. No., Consolidated, Quarter ended 31-Dec-21, 30-Sep-21, 31-Dec-20, Nine months ended 31-Dec-21, 31-Dec-20, 31-Mar-21. Rows include Total Income from Operations, Profit, Total Comprehensive Income, etc.

* Restated Notes: 1. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 9th February, 2022. 2. Financial Information of the standalone financial results of the Company is as follows:

Table with 6 columns: Sr. No., Standalone, Quarter ended 31-Dec-21, 30-Sep-21, 31-Dec-20, Nine months ended 31-Dec-21, 31-Dec-20, 31-Mar-21. Rows include Total Income from Operations, Profit, Total Comprehensive Income, etc.

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Stock Exchange websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.tatapower.com.

For and on behalf of the Board of THE TATA POWER COMPANY LIMITED
PRAVEER SINHA
CEO & Managing Director
DIN 01875164



EPIL Pipeline Infrastructure Limited
CIN: U60300MH2018PLC308292
Registered Office : Seawoods Grand Central, Tower-1, 3rd Floor, C Wing - 301 to 304, Sector 40, Seawoods Railway Station, Navi Mumbai, Thane, Maharashtra - 400706, India.

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2021

Table with 5 columns: Sr. No., Particulars, Quarter ended 31.12.2021, Year ended 31.03.2021. Rows include Total Income from Operations, Net Profit, Total Comprehensive Income, etc.

Notes: 1. The above Results have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at their respective meetings held on February 09, 2022. 2. The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with BSE Limited ("Stock Exchange") under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. 3. Details of Outstanding Redeemable Preference Shares (RPS)

Table with 4 columns: Particulars, As at December 31, 2021, As at March 31, 2021. Rows include 0% Redeemable Preference Shares, 50,000,000.

For Pipeline Infrastructure Limited Sd/- Akhil Mehrotra Managing Director and Chief Executive Officer DIN: 07197901
Date: February 09, 2022
Place: Mumbai

गोशा शिपयार्ड लिमिटेड

CIN No: U63032GA1967G0100077
(ISO 9001:2015) 14001:2015, 45001:2018 Certified Company)
(भारत सरकार का उपक्रम-रक्षा मंत्रालय)
वास्को- द- गामा, गोशा - 403082, भारत

जॉइंटम पोर्टल पर ई-निविदा सूचना (शुद्धिपत्र)
संख्या: GSL/OS/1267-68/11/01 तिथि 28-12-2021

01 बैंक तक जुड़ने के निमित्त, आउटपुट ऑटोमेटिक मॉड्यूल, शॉट ज्वरिस्टिंग एवं सीज़ो पोतीनीज चीपवर्क आर्डर नंबर 1267 एवं 1268 के आरंभ-पूर्व पंजीकरण के लिये योग्य घोषणादाताओं से वेबसाइट <http://gem.gov.in> पर दो घोषणापत्रों में अनिवार्य प्रस्ताव आमंत्रित है। (जॉइंटम बोली संख्या जॉइंटम/2021/बी/1807768)

बोली- पूर्व पंजीकरण तथा शुद्धिपत्र जॉइंटम पोर्टल पर प्रकाशित है। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी, 2022 के 15.00 बजे आईएमटी तक बढ़ा दी गई है।

निविदा केवल जॉइंटम पोर्टल द्वारा ही स्वीकार्य है। अधिक विवरणों के लिये पत्रिका पर (ओएए); फोन +91-832-2517295; ईमेल: mandamahabre@gosashipyard.com पर सम्पर्क करें।
"हम काम दै के करत"

पत्र ख सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवालता और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 12 के अधीन]

[कॉर्पोरेट देनदार का नाम] के हितधारकों के अवधानार्थ

क्र.सं.	शर्तिका	विवरण
1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	एसएएम आंटीमोटिव कम्पेनोट्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट देनदार के निर्माण की तिथि	27.06.2005
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट देनदार निर्मित/पंजीकृत है	आरजेओ दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट देनदार का कॉर्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U35974MDL2006PTC256164
5.	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	सम्पत्ति सं. 48/872, समने कोयला डिपो, स्कूल रोड, पीरगढ़ी, पश्चिम दिल्ली-110087
6.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया की अंतिम तिथि	08.02.2022
7.	कॉर्पोरेट देनदार के परिसमापन के आरंभ की तिथि	09.02.2022
8.	परिसमापक के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम तथा पंजीकरण संख्या	राकेश भाटिया IBBI/PA-001/PP-00978/2017-2018/11668
9.	बॉर्ड के साथ पंजीकृत के रूप में परिसमापक का पता तथा ई-मेल	123, न्यू लाजपत राम मार्केट, दिल्ली-110006, iprakeshbhatia@gmail.com
10.	परिसमापक के साथ होने वाले पत्राचार हेतु प्रयोग में लाया जाने वाला पता तथा ई-मेल	123, न्यू लाजपत राम मार्केट, दिल्ली-110006, liqspnautomotive@gmail.com
11.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	10.03.2022

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ-III ने दिनांक 08.02.2022 को एसएमआर आंटीमोटिव कम्पेनोट्स प्राइवेट लिमिटेड के कॉर्पोरेट ऋणशोधन समाधान प्रक्रिया को प्रारम्भ करने का आदेश दिया है। एतद्वारा एसएमआर आंटीमोटिव कम्पेनोट्स प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों को मर सं. 10 के सम्बन्ध उल्लिखित परिसमापक के पते पर प्रमाण सहित अपने दावे का प्रमाण 10.03.2022 को या इससे पूर्व प्रस्तुत करने का आह्वान किया जाता है। वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ता (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। दावे के फर्जी अथवा ध्रुवक प्रमाण को प्रस्तुति दण्डनीय होगी।

तिथि : 09.02.2022 परिसमापक का नाम एवं हस्ताक्षर स्थान : दिल्ली (राकेश भाटिया)

पत्र ख सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवालता और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

अंजीन रिप्लैन्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

क्र.सं.	शर्तिका	विवरण
1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	अंजीन रिप्लैन्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट देनदार के निर्माण की तिथि	13 अक्टूबर, 2007
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट देनदार निर्मित/पंजीकृत है	संयुक्त अर्थोपचार, नई दिल्ली कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत
4.	कॉर्पोरेट देनदार का कॉर्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U74999DL2007PTC161985
5.	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	संयुक्त अर्थोपचार, नई दिल्ली, प्लॉट नं. 72, आर्यो फ्लैट्स/एन, परचमपूर, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली-110092
6.	कॉर्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध अक्षमता आरंभ की तिथि	अंजीन की तिथि: 12/01/2022 (आंशिक/पूर्ण ऋण शोध अक्षमता आरंभ की तिथि: 08/02/2022)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमति तिथि	11/07/2022 (अंतिम/पूर्ण ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया समापन की तिथि 15/08/2022)
8.	अंजीन समापन प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और पंजीकरण संख्या	अमित शर्मा पंजीकरण सं. : IBBI/PA-002/PP-11078/2021-2022/13887
9.	अंजीन समापन प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, तथा कि-बोर्ड में पंजीकृत है।	पं. 415, जैन स्वर्ण अहट्टम/मिड, गिरडी रोड, पश्चिम, नई दिल्ली-110034 ई-मेल : amittalwars@gmail.com
10.	अंजीन समापन प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयोग में लाया जाने वाला पता तथा ई-मेल	पं. 415, जैन स्वर्ण अहट्टम/मिड, गिरडी रोड, पश्चिम, नई दिल्ली-110034 ई-मेल : crip.anjanirealtors@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	22/02/2022 (आंशिक/पूर्ण ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया समापन की तिथि 14/03/2022)
12.	अंजीन समापन प्रोफेशनल द्वारा पत्राचार हेतु प्रयोग में लाया जाने वाला पता तथा ई-मेल, तथा कि-बोर्ड में पंजीकृत है।	अंजीन देनदार के लिये एस्टेट प्रोफाइल (वित्तीय लेनदार) के तहत होना चाहिए।
13.	अंजीन के निदेशों के अंतर्गत प्रतिक्रिया के रूप में दावे करने हेतु प्रमाण का नाम (यदि कोई हो तो) का पता	1. जोड़े हुए निवेदन (IBB/JPA-001/PP-P-02525/2021-2022/13881) 2. जोड़े हुए बंध (IBB/JPA-001/PP-P-02550/2021-2022/13951) 3. जोड़े हुए दस्ता (IBB/JPA-001/PP-P-02534/2021-2022/13878)
14.	(क) संपर्कित पत्र और (ख) अधिकृत प्रतिक्रिया के विवरण देना है।	(क) वेब लिंक : https://bbi.gov.in/home/downloads (ख) अंजीन में 02 अक्टूबर, 2022 को दर्ज किए गए पत्र

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, पीठ-IV, दिल्ली ने अंजीन रिप्लैन्स प्राइवेट लिमिटेड के कॉर्पोरेट ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया प्रारम्भ करने का आदेश दिया है। अंजीन रिप्लैन्स प्राइवेट लिमिटेड के सभी लेनदारों से वेबसाइट <http://gem.gov.in> पर दो घोषणापत्रों में अनिवार्य प्रस्ताव आमंत्रित है। (जॉइंटम बोली संख्या जॉइंटम/2021/बी/1807768)। अंजीन रिप्लैन्स प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों को मर सं. 10 के सम्बन्ध उल्लिखित परिसमापक के पते पर प्रमाण सहित अपने दावे का प्रमाण 10.03.2022 को या इससे पूर्व प्रस्तुत करने का आह्वान किया जाता है। वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ता (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। दावे के फर्जी अथवा ध्रुवक प्रमाण को प्रस्तुति दण्डनीय होगी।

तिथि : 09.02.2022 अंजीन रिप्लैन्स प्राइवेट लिमिटेड के अंजीन समापन प्रोफेशनल स्थान : नई दिल्ली (अमित शर्मा)

अंजीन रिप्लैन्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

क्र.सं.	शर्तिका	विवरण
1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	अंजीन रिप्लैन्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट देनदार के निर्माण की तिथि	13 अक्टूबर, 2007
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट देनदार निर्मित/पंजीकृत है	संयुक्त अर्थोपचार, नई दिल्ली कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत
4.	कॉर्पोरेट देनदार का कॉर्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U74999DL2007PTC161985
5.	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	संयुक्त अर्थोपचार, नई दिल्ली, प्लॉट नं. 72, आर्यो फ्लैट्स/एन, परचमपूर, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली-110092
6.	कॉर्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध अक्षमता आरंभ की तिथि	अंजीन की तिथि: 12/01/2022 (आंशिक/पूर्ण ऋण शोध अक्षमता आरंभ की तिथि: 08/02/2022)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमति तिथि	11/07/2022 (अंतिम/पूर्ण ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया समापन की तिथि 15/08/2022)
8.	अंजीन समापन प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और पंजीकरण संख्या	अमित शर्मा पंजीकरण सं. : IBBI/PA-002/PP-11078/2021-2022/13887
9.	अंजीन समापन प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, तथा कि-बोर्ड में पंजीकृत है।	पं. 415, जैन स्वर्ण अहट्टम/मिड, गिरडी रोड, पश्चिम, नई दिल्ली-110034 ई-मेल : amittalwars@gmail.com
10.	अंजीन समापन प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयोग में लाया जाने वाला पता तथा ई-मेल	पं. 415, जैन स्वर्ण अहट्टम/मिड, गिरडी रोड, पश्चिम, नई दिल्ली-110034 ई-मेल : crip.anjanirealtors@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	22/02/2022 (आंशिक/पूर्ण ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया समापन की तिथि 14/03/2022)
12.	अंजीन समापन प्रोफेशनल द्वारा पत्राचार हेतु प्रयोग में लाया जाने वाला पता तथा ई-मेल, तथा कि-बोर्ड में पंजीकृत है।	अंजीन देनदार के लिये एस्टेट प्रोफाइल (वित्तीय लेनदार) के तहत होना चाहिए।
13.	अंजीन के निदेशों के अंतर्गत प्रतिक्रिया के रूप में दावे करने हेतु प्रमाण का नाम (यदि कोई हो तो) का पता	1. जोड़े हुए निवेदन (IBB/JPA-001/PP-P-02525/2021-2022/13881) 2. जोड़े हुए बंध (IBB/JPA-001/PP-P-02550/2021-2022/13951) 3. जोड़े हुए दस्ता (IBB/JPA-001/PP-P-02534/2021-2022/13878)
14.	(क) संपर्कित पत्र और (ख) अधिकृत प्रतिक्रिया के विवरण देना है।	(क) वेब लिंक : https://bbi.gov.in/home/downloads (ख) अंजीन में 02 अक्टूबर, 2022 को दर्ज किए गए पत्र

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, पीठ-IV, दिल्ली ने अंजीन रिप्लैन्स प्राइवेट लिमिटेड के कॉर्पोरेट ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया प्रारम्भ करने का आदेश दिया है। अंजीन रिप्लैन्स प्राइवेट लिमिटेड के सभी लेनदारों से वेबसाइट <http://gem.gov.in> पर दो घोषणापत्रों में अनिवार्य प्रस्ताव आमंत्रित है। (जॉइंटम बोली संख्या जॉइंटम/2021/बी/1807768)। अंजीन रिप्लैन्स प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों को मर सं. 10 के सम्बन्ध उल्लिखित परिसमापक के पते पर प्रमाण सहित अपने दावे का प्रमाण 10.03.2022 को या इससे पूर्व प्रस्तुत करने का आह्वान किया जाता है। वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ता (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। दावे के फर्जी अथवा ध्रुवक प्रमाण को प्रस्तुति दण्डनीय होगी।

तिथि : 09.02.2022 अंजीन रिप्लैन्स प्राइवेट लिमिटेड के अंजीन समापन प्रोफेशनल स्थान : नई दिल्ली (अमित शर्मा)

अंजीन रिप्लैन्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

क्र.सं.	शर्तिका	विवरण
1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम	अंजीन रिप्लैन्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट देनदार के निर्माण की तिथि	13 अक्टूबर, 2007
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट देनदार निर्मित/पंजीकृत है	संयुक्त अर्थोपचार, नई दिल्ली कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत
4.	कॉर्पोरेट देनदार का कॉर्पोरेट पहचान संख्या/सीमित दायित्व पहचान संख्या	U74999DL2007PTC161985
5.	कॉर्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	संयुक्त अर्थोपचार, नई दिल्ली, प्लॉट नं. 72, आर्यो फ्लैट्स/एन, परचमपूर, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली-110092
6.	कॉर्पोरेट देनदार के सम्बन्ध में ऋण शोध अक्षमता आरंभ की तिथि	अंजीन की तिथि: 12/01/2022 (आंशिक/पूर्ण ऋण शोध अक्षमता आरंभ की तिथि: 08/02/2022)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमति तिथि	11/07/2022 (अंतिम/पूर्ण ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया समापन की तिथि 15/08/2022)
8.	अंजीन समापन प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और पंजीकरण संख्या	अमित शर्मा पंजीकरण सं. : IBBI/PA-002/PP-11078/2021-2022/13887
9.	अंजीन समापन प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, तथा कि-बोर्ड में पंजीकृत है।	पं. 415, जैन स्वर्ण अहट्टम/मिड, गिरडी रोड, पश्चिम, नई दिल्ली-110034 ई-मेल : amittalwars@gmail.com
10.	अंजीन समापन प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयोग में लाया जाने वाला पता तथा ई-मेल	पं. 415, जैन स्वर्ण अहट्टम/मिड, गिरडी रोड, पश्चिम, नई दिल्ली-110034 ई-मेल : crip.anjanirealtors@gmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	22/02/2022 (आंशिक/पूर्ण ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया समापन की तिथि 14/03/2022)
12.	अंजीन समापन प्रोफेशनल द्वारा पत्राचार हेतु प्रयोग में लाया जाने वाला पता तथा ई-मेल, तथा कि-बोर्ड में पंजीकृत है।	अंजीन देनदार के लिये एस्टेट प्रोफाइल (वित्तीय लेनदार) के तहत होना चाहिए।
13.	अंजीन के निदेशों के अंतर्गत प्रतिक्रिया के रूप में दावे करने हेतु प्रमाण का नाम (यदि कोई हो तो) का पता	1. जोड़े हुए निवेदन (IBB/JPA-001/PP-P-02525/2021-2022/13881) 2. जोड़े हुए बंध (IBB/JPA-001/PP-P-02550/2021-2022/13951) 3. जोड़े हुए दस्ता (IBB/JPA-001/PP-P-02534/2021-2022/13878)
14.	(क) संपर्कित पत्र और (ख) अधिकृत प्रतिक्रिया के विवरण देना है।	(क) वेब लिंक : https://bbi.gov.in/home/downloads (ख) अंजीन में 02 अक्टूबर, 2022 को दर्ज किए गए पत्र

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, पीठ-IV, दिल्ली ने अंजीन रिप्लैन्स प्राइवेट लिमिटेड के कॉर्पोरेट ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया प्रारम्भ करने का आदेश दिया है। अंजीन रिप्लैन्स प्राइवेट लिमिटेड के सभी लेनदारों से वेबसाइट <http://gem.gov.in> पर दो घोषणापत्रों में अनिवार्य प्रस्ताव आमंत्रित है। (जॉइंटम बोली संख्या जॉइंटम/2021/बी/1807768)। अंजीन रिप्लैन्स प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों को मर सं. 10 के सम्बन्ध उल्लिखित परिसमापक के पते पर प्रमाण सहित अपने दावे का प्रमाण 10.03.2022 को या इससे पूर्व प्रस्तुत करने का आह्वान किया जाता है। वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ता (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। दावे के फर्जी अथवा ध्रुवक प्रमाण को प्रस्तुति दण्डनीय होगी।

तिथि : 09.02.2022 अंजीन रिप्लैन्स प्राइवेट लिमिटेड के अंजीन समापन प्रोफेशनल स्थान : नई दिल्ली (अमित शर्मा)

उत्तरांचल लीजिंग लिमिटेड

CIN: L65920DL1984PLC018839
पंजी. कार्यालय: ब्रि-5/105, अजय कॉम्प्लेक्स, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
टेलीफोन नं. 011-40564147
Email ID: uttaranchalleasing@gmail.com
Website: www.uttaranchalleasing.in

रीता फाइनांस एंड लीजिंग लिमिटेड

(पूर्व में रीता होल्डिंग्स लिमिटेड)
पंजी. कार्यालय: 324ए, III व तल, अग्रवाल प्लाजा, सेक्टर-14, रोहिणी, नई दिल्ली-110085
ईमेल: ritaholdingsid@gmail.com या www.ritaholdings.in
टेली: 011-45689444, CIN: L67120DL1981PLC11741

31 दिसम्बर, 2021 का वार्षिक लेखापत्र तथा वार्षिक लेखापत्र का तालिका संख्या 2021-22

अनंकेषित वित्तीय परिणामों के विवरण का तालिका संख्या 2021-22

क्र. सं.	विवरण	समापन तिमाही 31.12.2021 (अनंकेषित)	वित्तिय तालिका वर्ष के आकड़े (समापन तिमाही 31.12.2021 (अनंकेषित)	पूर्व वर्ष के आकड़े (समापन तिमाही 31.12.2020 (अनंकेषित)
1.	परिचालनी से कुल आय	31.48	222.71	29.63
2.	अवधि के लिए युद्ध लाभ/(हानि) (कर, विविध एवं/अथवा असाधारण मूल्य से पूर्व)	8.84	177.36	(19.56)
3.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विविध एवं/अथवा असाधारण मूल्य के बाद)	8.84	177.36	(19.56)
4.	कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विविध एवं/अथवा असाधारण मूल्य के बाद)	6.16	140.83	(26.07)
5.	अवधि हेतु कुल व्ययक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) शुद्ध लाभ/(हानि) एवं अन्य व्ययक आय (कर के बाद से शांति)	(15.63)	156.07	(31.89)
6.	इन्फिटी सेक्टर पूरा	1000.00	1000.00	1000.00
7.	अवधि (पूर्व वर्ष के अनंकेषित वार्षिक आय से दर्शाई गई) पूर्णवर्षावक आय/अवधि के अनंकेषित आय/अवधि	393.79	393.79	150.70
8.	आय प्रति शेयर (₹.10/- प्रति भाग) (वारीय वर्ष अवकाश के लिए) (वार्धिकृत नहीं)	0.06	1.41	(1.09)
	का) शुद्ध	0.06	1.41	(1.09)
	का) सरतः	0.06	1.41	(1.09)

नोट:

- उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्ध दायित्व तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत रटिक एक्सचेंज में दायित्व की गई अनंकेषित तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रामाण्य का साह है। अनंकेषित वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रामाण्य रटिक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bse-india.com, www.msei.in) तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.ritaholdings.in) पर उपलब्ध है।
- उपरोक्त वित्तीय परिणामों का अंतिम कर्मिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 9 फरवरी, 2022 को आयोजित उनकी बैठक में घोषित द्वारा अनुमोदित किए गए।
- वित्तीय परिणामों को ई-एसएस निवेदनवाली (यथा-संशोधित) के साथ पंजीकृत कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निरदिष्ट प्रतिलिपि लेखा मानक (ई-एसएस) के अनुसार तैयार किया गया है।

निदेशक मंडल के लिखे वार्ता उम्मीद और से रीता फाइनांस एंड लीजिंग लिमिटेड (पूर्व में रीता होल्डिंग्स लिमिटेड) हस्ता./- पवन कुमार मिश्र (निदेशक) DIN: 00749262

पंजाब नेशनल बैंक Punjab National Bank

लॉकर लॉन्ग के लिए नोटिस

निम्नलिखित लॉकर धारकों को बैंक रिपोर्ट में पंजीकृत उनकी आवस्यीय पते पर अतिदेश लॉकर की वसूली के लिए नोटिस पहले ही दिया जा चुका है। हमारे बैंक अधिकारी भी उसी पते पर गए हैं लेकिन लॉकर धारकों का पता नहीं चल रहा है।

इसके अलावा बैंक निम्नलिखित लॉकर धारकों को विज्ञापन/सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से तुरंत शाखा में जाने की सूचना देता है अन्यथा बैंक शाखा के पास लॉकर खोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा और संबंधित बैंक ऑपन कार्ड, लॉकर का अतिदेश निदेशक और चाली बदलने का शुल्क, अतिदेश लॉकर की बिलेट से प्राप्त माल सूची से मूल्यांकन प्रामाण्य बहाल किया जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पता
1.	जय श्री लाल	प्लॉट नं. 46, सेक्टर-9, रोहिणी-110085
2.	केवल कुमार	एस-2/200 पीतमपुरा दिल्ली-110034
3.	अरविंद कुमार सिंह	सी-99 पीतमपुरा दिल्ली-110088
4.	कृष्णा श्री लाल	का-39 पीतमपुरा दिल्ली-110085
5.	बच्चा राज वैद	सी-60 अहिंसा गिरा रोहिणी सेक्टर 9 दिल्ली-110085
6.	सुरेश कुमार खन्ना	ए-6 फ्लूट रोहिणी सेक्टर 13 दिल्ली-110085
7.	जगु मीठी	एफ-22/18 रोहिणी सेक्टर 9 दिल्ली-110085
8.	अमिता अरुण	एफ-17/155 रोहिणी सेक्टर 8 दिल्ली-110085
9.	कृष्णा रानी	एफ-17/123 रोहिणी सेक्टर 7 दिल्ली-110085
10.	अंकुश कुमार मूढानी	ए-1/2/3 रोहिणी सेक्टर 7 दिल्ली-110085
11.	मनोज कुमार	एसडी-356 टावर अस्प पीतमपुरा दिल्ली-110034
12.	हरि बंद बजा	ए-28 जय सिव एम सी-2 पीतमपुरा दिल्ली-110034
13.	रमेश कुमार	डी 112 शक्ति एम रोहिणी सेक्टर 8 दिल्ली-110085
14.	आरती भाटिया	310 लाल ज्योति एम रोहिणी सेक्टर 9 दिल्ली-110085
15.	अजय जैन / मेधाश्री जैन	एफ-22/34 रोहिणी सेक्टर 7 दिल्ली-110085
16.	इंदर	55-एफ-19 सेक्टर 8 रोहिणी दिल्ली-110085
17.	पिपिन कुमार	2032 की गली बक्री गली किनारी बाजार एनडी-110006
18.	सुरेश कुमार / रोहिणी सहजल	56 लोक गार्ड एम रोहिणी सेक्टर 9 दिल्ली-110085
19.	पंकज शोवर / वीणा शोवर	सी-3/2 जीवन ज्योति पीतमपुरा दिल्ली-110034
20.	रोहित बंसल / पुनम बंसल	डी-78 सेक्टर 30 नोएडा एम सी-201301
21.	गुलशन कर आडुजा / सरिता आडुजा	जोडी 134 पीतमपुरा दिल्ली-110085
22.	गुलमील कोर	बी-75 लाल एम पीतमपुरा दिल्ली-110034
23.	मनोरमा सिंह	सी-1 डी सूर्य अंतर्गत रोहिणी सेक्टर-13 दिल्ली-110085

मुख्य प्रबंधक
पंजाब नेशनल बैंक, नाहापुर सेक्टर-7, रोहिणी-110085

TMB

सर्वोच्च क्वालिटी बैंक
जयपुर शाखा
नं. 80-83 एवं 84, जी-1, भूल, फॉर्च्यून हार्बर
सी-स्क्रीम, सुभाष मार्ग, जयपुर-302001, राजस्थान
फोन नं. : 9983933455
ईमेल : 0651107N1921PLC001908

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु नीलामी सूचना